CIN: L65100DL1994PLC061287





Date: 17.09.2024

Letter No. FFL/SEC/2024-25/SE-86

The Manager	The Manager
Listing Department	Listing Department
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block	Phiroze Jeejeebhoy Towers
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -	Dalal Street, Mumbai - 400 001
400 051	
Scrip Code: FUSION	Scrip Code: 543652

Sub: Newspaper Advertisement - Public Notice regarding receipt of fresh Certificate of Registration from Reserve Bank of India.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisements published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspaper, on September 17, 2024, regarding receipt of fresh Certificate of Registration dated August 30, 2024, from Reserve Bank of India, in the name of "Fusion Finance Limited", on September 12, 2024.

The aforesaid advertisement is also available on the website of the Company at www.fusionfin.com.

You are requested to kindly take above information on your records.

Thanking you,

For Fusion Finance Limited (Formerly Fusion Micro Finance Limited)

Deepak Madaan **Company Secretary & Chief Compliance Officer** Membership No. A24811 Place: Gurugram

Regd. Office : H-1, C-Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi - 110028, Ph. : 011-46646600

FINANCIAL EXPRESS



NIDO HOME FINANCE LIMITED

(formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited)

DISCLAIMER STATEMENT OF CRISIL: CRISIL Ratings Limited (CRISIL Ratings) has taken due care and caution in preparing the material based on the information provided by its client and / or obtained by CRISIL Ratings from sources which it considers reliable (Information). A rating by CRISIL Ratings reflects its current opinion on the likelihood of timely payment of the rated entity by CRISIL Ratings. CRISIL Ratings does not guarantee the completeness or accuracy of the information on which the rating is based. A rating by CRISIL Ratings is not a recommendation to buy, sell, or hold the rated instrument; it does not commend to buy, sell, or hold the rated instrument; it does not commend to buy, sell, or hold the rated instrument; it does not commend to buy, sell, or hold the rated instrument; it does not commend to buy, sell, or hold the rated instrument. invest / disinvest in any entity covered in the Material and no part of the Material should be construed as an expert advice or investment banking within the meaning of any law or regulation. CRISIL Ratings especially states that it has no liability whatsoever to the subscribers / users / transmitters/ distributors of the Material. Without limiting the generality of the foregoing, nothing in the Material is to be construed as CRISIL Ratings providing or intending to provide any services in jurisdictions where CRISIL Ratings does not have the necessary permission and/or registration to carry out its business activities in this regard. Nido Home Finance Limited will be responsible for ensuring compliances and consequences of non-compliances for use of the Material or part thereof outside India. Current rating status and CRISIL Ratings' rating criteria are available without charge to the public on the website, www.crisil.com. For the latest rating information on any instrument of any company rated by CRISIL Ratings, please contact Customer Service Helpdesk at 1800-267-1301.

CREDIT RATING: The NCDs proposed to be issued under the Issue have been rated "CRISIL A+/ Watch Negative (Placed on Rating Watch with Negative Implications)" for an amount of ₹5,000 million by CRISIL Ratings Limited vide their rating letter dated June 7, 2024, revalidated vide letter dated August 12, 2024 and rating rationale dated June 7, 2024. Securities with this rating are considered to have adequate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. Such securities carry low credit risk. The rating watch reflects an emerging situation, which may affect the credit profile of the rated entity. The rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and investors should take their own decision. The rating given by CRISIL is valid as on the date of the Prospectus and shall remain valid until the ratings are revised or withdrawn. The rating agency and each rating should be evaluated independently of any other rating. The rating agency has a right to suspend or withdraw the rating at any time on the basis of factors such as new information. Please refer to Annexure A of the Prospectus for the rating, rating rationale and press release of the above rating. There are no unaccepted ratings and any other ratings other than as specified in the Prospectus.

GENERAL RISK: Investment in NCDs is risky, and investors should not invest any funds in such securities unless they can afford to take an informed decision and to read the risk factors carefully before investing in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their examination of the issue including the risks involved in it. Specific attention of investors is invited to statement of risk factors contained under section "Risk Factors" on page 16 of the Prospectus. These risks are not, and are not intended to be, a complete list of all risks and considerations relevant to the non-convertible securities or investor's decision to purchase such securities.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application forms can be obtained from the Issuer: Nido Home Finance Limited (Formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited); Lead Managers: Tipsons Consultancy Services Private Limited and Nuvama Wealth Management Limited, Consortium Members to the Issue, the Registrar to the Issue, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Electronic Application Forms will also be available on the websites of BSE.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors on page 16 of the Prospectus before applying in the Issue. Physical copy of the Prospectus may be obtained from the Registered and the Corporate Office of the Company or from the office of the Lead Managers, Consortium Members for marketing of the Issue, the Registrar to the Issue and the designated branches of the Prospectus is available on the websites of the Issuer/Lead Managers/BSE at www.nidohomefin.com, www.tipsons.com, www.nuvama.com and www.bseindia.com, respectively.

PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK, SPONSOR BANK AND REFUND BANK: Occil Bank ICICI Bank Limited.

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE



Tipsons Consultancy Services Private Limited

1st Floor, Sheraton House, Opposite Ketay Petrol Pump, Polytechnic Road, Ambawadi, Ahmedabad - 380015 Gujarat Tel: +91 7966828064 / 9589801774 Email: project.shikhar2@tipsons.com Website: www.tipsons.com

Contact person: Nagesh Chauhan

CS.CBG@nidohomefin.com.

Place: Mumbai

Date: September 16, 2024

nuvama

Nuvama Wealth Management Limited 801-804, Wing A, Building No 3, Inspire BKC, G Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051 Tel: +91 22 4009 4400

Email: nhfl.ncd@nuvama.com Website: www.nuvama.com Contact Person: Saili Dave

THE ISSUE

5W, 5th Floor, The Metropolitan,

Beacon Trusteeship Limited*

DEBENTURE TRUSTEE TO

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai, Maharashtra, India, 400051 Tel.: +91 22 4606 0278

Email: contact@beacontrustee.co.in Website: www.beacontrustee.co.in Contact Person: Kaustubh Kulkarni

▲ KFINTECH

KFIN Technologies Limited

Selenium Tower B, Plot no. 31 and 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 /18003094001 Fax: +91 40 6716 1563 Email: nhfl.ncdipo@kfintech.com

REGISTRAR TO THE ISSUE

Website: www.kfintech.com Contact Person: M Murali Krishna

STATUTORY AUDITOR CREDIT RATING AGENCY (S) CRISIL

Ratings

CRISIL Ratings Limited (a subsidiary of CRISIL Limited)

CRISIL House, Central Avenue, Hiranandani Business Park Powai, Mumbai – 400 076 Maharashtra, India Tel: +91 22 3342 3000 (B) Email: crisilratingdesk@crisil.com

Website: www.crisilratings.com Contact Person: Ajit Velonie

mgi

MGB & Co., LLP, **Chartered Accountants** Peninsula Business Park, Tower B, 19TH Floor, Lower Parel, Mumbai-400013 Tel: +91 22 6124 6124

Email: mgbco@mgbco.com Website: www.mgbco.com Contact Person: Diwaker Sudesh Bansal

*Beacon Trusteeship Limited under regulation 8 of SEBI NCS Regulations has by its letters dated August 21, 2024, and September 12, 2024, given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue and for its name to be included in the Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the NCDs issued pursuant to the Issue.

COMPANY SECRETARYAND COMPLIANCE OFFICER: Archana Nadgouda, Address: Tower 3, 5th Floor, Wing B, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (West) Mumbai 400070, Maharashtra, India Tel.: +91 22 4272 2200, Email:

DISCLAIMER: Nido Home Finance Limited (Formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited) ("Company"), subject to market conditions, and other considerations, is proposing a public issue of secured redeemable non-convertible debentures ("NCDs") and has filed a prospectus dated September 12, 2024 ("Prospectus") with the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("RoC"), BSE Limited ("BSE") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Prospectus is available on the website of the Company at www.nidohomefin.com, on the website of BSE at www.bseindia.com, on the website of the lead managers at www.tipsons.com and on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Investors proposing to participate in the Issue should invest only on the basis of the information contained in the Prospectus. Investors should note that investment in the NCDs involves a high degree of risk and for details in relation to the same, refer to the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" and "Material Developments"

0

Note: Capitalized terms not defined herein shall have the same meaning as assigned to such terms in the Prospectus.

For Nido Home Finance Limited (Formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited)

Rajat Avasthi

Managing Director & CEO DIN: 07969623

CONCEPT



beginning on page 16 and 150 respectively of the Prospectus.

Invitation for Bids (IFB) for 400kV GIS Substation Package SS-135 for (a) Extension of 400/220/132kV Pandiabili GIS Substation under ERBS-I, (b) Extension of 400/220/132kV Rangpo GIS Substation under ERBS-II and (c) Bay Extension of Misa GIS S/s under NERES-XXVIII.

Single Stage Two Envelope (SSTE) Bidding Procedure DOMESTIC COMPETITIVE BIDDING (Funding : Domestic) Date: 17/09/2024

POWERGRID invites online bids through e-portal https://etender.powergrid.in for the following Package:

RFx. No. Tel.	Donaldon	Downloading of Bidding Documents; Cost of Bidding Documents	Deadline for Bid Submission (Soft copy part)
5002003760 0124-2822357	CC/NT/W- GIS/DOM/ A04/24/10629	up to 01/10/2024; Time: upto 1100Hrs. Document Fee: Rs.25,000/-	Soft copy part: up to 01/10/2024; Time: upto 1100Hrs.

any, please visit procurement portal https://etender.powergrid.in. 2. The first Envelope (Techno-Commercial part) of the bid shall be opened 30 minutes after the deadline of Bid Submission(soft copy

. The complete Bidding Documents are also available on our website 🗦 http://www.powergrid.in on Government of India's Central Public C Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) for the purpose of

The NIT /IFB has already been published on https://etender.powergrid.in.portal on 30/07/2024.

5. For any other information, please contact: +919431820218 +919205472324

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise)

Corp. Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Reg. Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016 www.powergridindia.in. CIN: L40101DL 1989GOI038121

A Maharatna PSU

Fusion Finance Limited (Formerly Fusion Micro Finance Limited)

CIN: L65100DL1994PLC061287 Finance Registered Office: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028. Corporate Office: Plot No. 86, Institutional Sector 32, Gurugram-122001, Haryana Email ID: companysecretary@fusionfin.com Website: www.fusionfin.com

Ph.: 0124-6910500/6910600

Date: 16.09.2024

ce: Gurugram

PUBLIC NOTICE

This public notice is issued by Fusion Finance Limited ("Company") (formerly known as Fusion Micro Finance Limited), a registered NBFC-MFI, as advised by RBI's Department of Supervision, New Delhi, vide its letter dated April 18, 2024, regarding No Objection Certificate (NOC) for the Change in Name of the Company to 'Fusion Finance Limited' from 'Fusion Micro Finance Limited'.

This is to bring in the notice of all the stakeholders that, consequent to the change in name of the company to 'Fusion Finance Limited' from 'Fusion Micro Finance Limited', the Reserve Bank of India has issued a Fresh Certificate of Registration dated August 30, 2024, in the name of 'Fusion Finance Limited', which is received by the company on September 12, 2024.

information. The copy of this notice is also available on the website of the

All stakeholders are requested to take note of the above

Company at www.fusionfin.com. For Fusion Finance Limited

(Formerly Fusion Micro Finance Limited)

Fusion

Deepak Madaan Company Secretary & Chief Compliance Officer Membership No. A24811

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF M/S. SUDHA SIVA TRADERS PRIVATE LIMITED

SI.No.	Particulars	Details		
1	Name of corporate debtor	M/s. SUDHA SIVA TRADERS PRIVATE LIMITED		
2	Date of incorporation of corporate debtor	23/12/2011		
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/ registered	Register of Companies (ROC) - Chennai		
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U51909TN2011PTC083725		
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor.	No.602, Laxmipuram, Sembarambakkam, Chennai, Tamilnadu		
6	Date of closure of Insolvency Resolution Process	14-05-2024		
7	Liquidation commencement date of corporate debtor	12-09-2024 (However order Copy made available on 13-09-2024)		
8	Name and registration number of the Insolvency Professional acting as the Liquidator	Mummneni Vazra Laxmi IBBI/IPA-001/IP-P00919/2017-2018/11526		
9	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	Flat No.107, V.V.Vintage Residency, Somajiguda, Hyderabad-500082 Email id: emailtolak@gmail.com cirpsudhasiva@gmail.com		
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	Flat No.503, Sri Aditya Land Mark Somajiguda, Hyderabad-500082		

11 Last date for submission of claims 17-10-2024 Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Chennai Bench has ordered the

commencement of liquidation of M/s. SUDHA SIVA TRADERS PRIVATE LIMITED on 12-09-2024 (However, order made available on 13-09-2024). The stakeholders of M/s. SUDHA SIVA TRADERS PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 17-10-2024, to the iquidator at theaddress mentioned against item No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only.

Email id: emailtolak@gmail.com and

cirpsudhasiva@gmail.com

All others may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties. Date: 17-09-2024

Mummaneni Vazra Laxmi Liquidator Place: Hyderabad

BEFORE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, KOLKATA

C.A. (CAA) 43/KB/2024 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

IN THE MATTER OF SECTION 230 READ WITH SECTION 232, SECTION 52, SECTION 66 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013

IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT

LOTUS AUTO ENGINEERING LIMITED (CIN: U74120WB2010PLC267057)

DEEPAK INDUSTRIES LIMITED (CIN: L63022WB1954PLC021638)

NOTICE OF HEARING Notice is hereby given that a Company Petition (CP (CAA) 166/KB/2024) for considering a

Composite Scheme of Arrangement ('Scheme') between Lotus Auto Engineering Limited

(hereinafter referred to as 'Transferor Company') and Deepak Industries Limited (hereinafter

referred to "Transferee Company") has been filed before Hon'ble NCLT. Kolkata Bench, whereby

and where under it is proposed to (a) reduce the share capital of the Transferor Company

pursuant to the writing off securities premium against the debit balance of the profit and loss

account of the Transferor Company in terms of section 52 read with section 66 of the Act, in the

manner and on the terms and conditions stated in the said Scheme and (b) amalgamation of the

Transferor Company with the Transferee Company in terms of Section 232 read with Section 230 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with allied rules made

The Hon'ble NCLT, Kolkata Bench, vide order dated 3rd September, 2024 (uploaded on the

website of NCLT on 9th September, 2024) has fixed October 18, 2024 as the next date of hearing

Any person desirous of supporting or opposing the Scheme should, sent to the Authorised

Representative of the Petitioner Companies, viz. Vinod Kothari & Company, Practicing Company

Secretaries, Room No. 1006-1009, Krishna Building, 224 AJC Bose Road, Kolkata-700017,

notice of such intention in hard copy, signed by him/her or by his/her advocate, with his/her full name, address, so as to reach the authorised representative of the Petitioner Companies at least

Where any person seeks to oppose the Scheme, the ground of opposition or a copy of his/her

affidavit shall be furnished with such notice and a copy thereof be served on the Authorised

representative of the Petitioner Companies, as aforesaid, not less than 2 days before the date

A copy of Scheme can be seen at the website of the Company at https://www.dil-

thereunder, to be effective with effect from the Appointed Date, viz 1st day of October, 2023

of the said Petition.

2 days before the date fixed for hearing, as aforesaid.

india.com/scheme-of-arrangement

.....PETITIONER/TRANSFEROR COMPANY

...PETITIONER/TRANSFEREE COMPANY

Registered office: Shipping House, 245, Madame Carno Road, Mariman Point, Mambel City, bai, Maharashtra, India, 400021. Tel.: 91-022-2277 2220 • Fax: 91-022-2202 6965 • Website: www.ship • Twitter: @shippingcorp • Email: sci cs@sci co.in • CIN: L63039WH1950G0193833 REVISION IN THE 74TH ANNUAL REPORT OF THE COMPANY FOR FINANCIAL YEAR 2023-24 Electronic copies of Notice of 74th AGM along with Annual Report of FY 2023-24

The Shipping Corporation Of India Ltd.

have been sent through electronic mode on 21.08.2024 to those Members whose email ids are registered with RTA/ Depositories as on 09.08.2024. Notice of 74th AGM along with Annual Report of FY 2023-24 is also available on www.shipindia.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.evoting.nsdl.com

Further to above circulation of Annual Reports, in the table appearing at Page No. 78 of the said Annual Report, under the head 'Annual Report on CSR Activities 2023-24', the Shareholders are hereby requested to read the respective years as '2024' against Sl. No 1 to 20 mentioned under the column 4 - Date of creation. The Revised Annual Report of FY 2023-24 is available on www.shipindia.com. www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.evoting.nsdl.com.

For THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LIMITED Place: Mumbai Date: 17.09.2024

Smt Swapnita Vikas Yadav Company Secretary & Compliance Officer JHHH J. Transporting Goods, Transforming Lives

NOTICE

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED Registered office: 3rd floor, Market Chambers IV 222, Nariman Point, Mumbai - 400021

NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the under mentioned securities of the company has/have been lost/mislaid and the holder(s) of the said securities/applicant(s) has/have applied to company to issue of duplicate certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company at its registered office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue of duplicate certificate(s) without further intimation.

NO NO	NO NO	NUMBER [S]	NO. OF SHARES	REMARK	
004026683	5077763 - 5077765	83633123 - 83633180	58		
	6438315	135904706 - 135904738	33		
	10485849	187695406 - 187695439	34	LOSS	
	53963513 - 53963515	1267733539 - 1267733688	150		
	56953843	25844605 - 25844629	25		

Place - PUNE Date - 16/09/2024

Name of shareholders Mukund Manohar Joshi / Madhuri Manohar Joshi Girish Manohar Joshi & LATE Mohini Manohar Joshi

MUTUALFUNDS



Haq, ek behtar zindagi ka.

Notice For Declaration of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Quantum of

Sr. No.	Scheme Name	IDCW (Gross Distributable Amt)*		Value (Rs. per	NAV as on September 13, 2024 (per unit)	
		96	Rs. per unit	unit)	Plan/Option	Rs.
1	UTI Low Duration Fund	0.90%	9.0000	1000	Regular Plan - Quarterly Payout of IDCW Option	1332.0279
2	UTI Ultra Short Duration Fund	0.90%	9.0000	1000	Regular Plan - Quarterly Payout of IDCW Option	1219.5546
3	UTI Floater Fund	0.90%	9,0000	1000	Direct Plan - Quarterly Payout of IDCW Option	1311.4049
4	UTI Floater Fund	0.90%	9.0000	1000	Regular Plan - Quarterly Payout of IDCW Option	1201.3828
5	UTI Quarterly Interval Fund - I	0.90%	0.0900	10	Direct Plan - Payout of IDCW Option	10.9415
6	UTI Quarterly Interval Fund - I	0.90%	0.0900	10	Regular Plan - Payout of IDCW Option	10.8672
7	UTI Quarterly Interval Fund - II	0.90%	0.0900	10	Direct Plan - Payout of IDCW Option	10.8853
8	UTI Quarterly Interval Fund - II	0.90%	0.0900	130	Regular Plan - Payout of IDCW Option	10.8317
9	UTI Quarterly Interval Fund - III	0.90%	0.0900	10	Direct Plan - Payout of IDCW Option	10.9363
10	UTI Quarterly Interval Fund - III	0.90%	0.0900	10	Regular Plan - Payout of IDCW Option	10.8848

Record date for all the above mentioned schemes/plans will be Thursday, September 19, 2024 *Distribution of above IDCW is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable). Income distribution will be made, net of tax deducted at source as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal options whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of IDCW to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of IDCW.

Mumbai - September 16, 2024 Toll Free No.: 1800 266 1230 Website: www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867). For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of

Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form. Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Dated this 16th day of September, 2024

Din: 00040632 **Deepak Industries Limited**

(Transferee Company) tinancialexp.epapr.in

Yashwant Kumar Daga

Sd/-

Director

New Delhi



हिंदुजा हाउसिंग फाईमेंस लिमिटेड <u>क्रोपोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015.</u>

ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com एफ8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर-4, महालक्ष्मी मेट्रो, वैश्वाली, गाजियाबाद-201010

एएलएम – जनम मोहन शर्मा, 8800898999, आरबारएम – वसित कौशिक, 9587088333, शीएलएम – रवेटा जानंद – 8931927979, शीआएरम – भी वसिजीट राय – 9131485773

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसीएक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभृतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है। हिंदुजा हाउसिंग फाईनेस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण जो किएन पीए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तत मांग सबना निम्नवर्णित ऋणियोएवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरणएवं पुनर्गटनएवं प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई/जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशि 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियों जो कि निम्नलिखित ऋणियों /जमानतदारो

क सं.	कर्जवार/सह-कर्जवार/गारंटर के नाम औरएनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण		
1	बी आकाश सतीश और बी कमलेश, दोनों: ई-155, आकाश	मांग सूचना की तारीख 24-08-2024	फ्रीहोल्ड आवासीय मकान, खसरा सं. 405 के अंतर्गत गांव सीकरी कला परगना, जलालाबाद तहसील मोदीनगर		
	नगर, शाहदरा, दिल्ली खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000001650 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 06-03-2024	वकाया राशि र 96,99,65/- विनांक 21.08.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित, चीहही: पूरव में राम शरण का प्लॉट, पश्चिम में - रास्ता, उत्तर में जयप्रकाश का प्लॉट, दक्षिण में - इरिकिशोर की प्लॉट		
2	श्री अनिल पाल और सुश्री राज कली, दोनों: मकान नं. 520, सेक्टर 23, संजय नगर, गाजियाबाद-201001 खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000000372	मांग सूचना की तारीख 04-04-2024 बकाया राशि	मकान नं. 284, सैक्टर-23, संजय नगर गाजियाबाद-201001		
	& CO/CPC/CPCO/A000000082 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथि: 06-03-2024	र 14,37,734/- दिनांक 10.03.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि			
3	त्री अंकित शर्मा और सुत्री हर्किता कीशिक, दोनों: 10/11ए, सुभाष गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	मांग सूचना की तारीक 24-08-2024 बकाया रात्रि ₹ 15,75,019/- दिनांक	एक रिहायशी प्रथम तल, जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 43 वर्ग में , बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं. 361/1 पर निर्मित सैक्टर-5, रिहायशी कॉलोनी मोहन नगर सहकारी आवा समीति लिमिटेड वसुंघरा स्कीम गाजियाबाद, तहसील औ		
	श्वाला नं. DL/DEL/DWND/A000000555 & CO/CPC/CPOF/A000001489 अस्य खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 03-06-2024	21.08.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	निता- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, चीहरी: पूरव - लॉट नं. 5/361/2, पश्चिम में - लॉट नं. 5/36: उत्तर में - 6 मी. धीड़ी रोड़, दक्षिण में - लॉट स् 5/300/1		
4	त्री आबिद और श्रीमती रुखसाना, दोनों: मकान नं. 58 मारत नगर 1 खोरा कॉलोमी, माजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201309	मांग सूचना की तारीख 05-09-2024 बकाया राशि	रिहायशी प्लॉट, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा नं. 13 में र रिहायशी कॉलोनी, भारत नगर, गाँव खोड़ा, परगना लोन तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, चीटर्ड		
	खाता नं. DL/NCU/NOIU/A000000541 अरण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 05-07-2024	र 9,27,217/- दिनांक 05.09.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	पूरव में - गली 10 फीट चीड़ी, पश्चिम में - अन्य का फ उत्तर में - अन्य का प्लॉट, दक्षिण में - अन्य की संपत्ति		
5	त्री अनुराग यादव और सुत्री नेहर, दोनों एक 115, पंवशील गार्डन, सरोवर रोड, नवीन शाहदरा, मुस्कान बीक,	मांग सूचना की तारीख 24-08-2024	प्लॉट सं. 128, जिसका क्षेत्रफल 55 वर्ग गज, खसरा स 299 के अंतर्गत, गली नं. 12 की आबादी, अजोक वाटिक		
	विल्ली-110032 खाता नं. GR/KAP/KUNJ/A000000452 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 05-07-2024	बकाया राशि ₹ 17,08,483/- दिनांक 21.08.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	गांव-पसींडा परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, चीहटी: पूरव में - अन की संपत्ति, पश्चिम में - 15 फीट चीड़ी सड़क/लीट प्रवेश उत्तर में - लॉट सं. 129, दक्षिण में - जीट स		
6	श्री विनोद सुरेंद्रन और श्री प्रिसी, दोनों:एक-6/907 शालीगार गार्डनएक्सटेंशन-। साहियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	मांग सूचना की तारीख 05-09-2024	प्रवेहोल्ड आवासीयएमआईजी पलैट नं. बी-3 ऊपरी भू पर (स्तर-बी) 750 वर्ग फीट या 69.67 वर्ग मी., फॉट न् 25 पर निर्मित, शालीमार गार्डनएक्सटेंशन ।, गांव पसींट परगना लोनी, तहसील जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित, बोहडी: पूरव में - सड़क 150 फीट बोड़ी, पश्चिम - ज्तांट नं. 26/ फ्लैट नं. बी-4, उत्तर में - सड़क 3		
	- 201005 खाता नं. DL/KNR/RANJ/A000000124 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथि: 05-07-2024	बकाया राशि र 18,94,050/- दिनांक 05.09.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि			
7	श्रीमान दीप सिंह और सुश्री दीपिका सिंह, दोनों: मकान नंबर-257, जपवास गाजियाबाद, यूपी-201001	मांग सूचना की तारीख 24-08-2024	फीट चौड़ी, दक्षिण में – सर्विस लेन फ्रीहोल्ड रिहायशी खाली, पुराने नगर निगम नंबर-149 फॉट का हिस्सा, नया नंबर 127, क्षेत्रफल 75 वर्ग क		
	खाता नं. DL/NCU/NOIU/A000001356 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 05-07-2024	बकाया राशि ₹ 19,32,693/- दिनांक 21.08.2024 तक + ब्याज एवं कानुनी प्रभार इत्यादि	अर्थात 62.70 वर्ग मी., मोडल्ला मरजाजान गाजियाबा तहसील और जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थि चीहद्दी: पूरव में - अन्य की संपत्ति, पश्चिम में - सड़ उत्तर में - अन्य का फ्लैट, दक्षिण में - अन्य का फ्लैट		
8	श्री दिनेश चमोली और सुश्री उषा चमोली, दोनों: फ्लैट नं.एस-2, हॉर्षेत होम्स, जागृति विहार, संजय नगर गुलवर-2, गाजियाबाद, उ.म. मारल-201002	गांग सूचना की तारीख 17-06-2024	फ्रीहोल्ड रिहायशी फ्लैट नं.एस-2, द्वितीय तल, (पीछे व तरफ) बिना छत के अधिकार के, कवर्ड क्षेत्रफल 620 व		
	खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000001419 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 06-03-2024	बकाया राशि ₹ 11,53,337/- दिनांक 17.06.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	फीट (57.59 वर्ष मी.) निर्मित प्लॉट नं. 11 का प्र खसरा नं. 874 मिन के अंतर्गत, जामृति वि गुलघर-11, गांव दरगल परगना जलालाबाद तहसील जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित, चीहही: पूरव अन्य का प्लॉट, पश्चिम में - 20 फीट चीड़ी सड़क (प्रव उत्तर में - प्लीट नं.एस-1, दक्षिण में - बालकनी		
9	श्री जाहिद मलिकएवं श्रीमती आरफा, दोनों: मकान नं. 104, सराय नजर अली गाजियाबाद-201001	मांग सूचना की तारीख 17-06-2024	प्रीहोल्ड रिहस्वशी मकान नगर निगम सं. 149, क्षेत्रफल 5 वर्ग गज (41.805 वर्ग मी.), सराय नजर अली, गांव कैंत		
	खाता नं. DL/MNR/MVHR/A000000072 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 06-03-2024	बकाया राशि र 22,00,626/- दिनांक 17.06.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	भट्टा परगना लोगी तहसील और जिला गाणियाबाद (उत्त प्रदेश) में स्थित, चीहदी: पूरव में - लब्बूराम और कुंती व मकान, पश्चिम में - सतीश चंद गुप्ता का मकान, उत्तर -12 फीट चीड़ी सड़क, दक्षिण में - जगशोरण का मकान		
10	बी जितेंद्र पाल और बीमती मंजू जितेंद्र पाल, दोनों: प्लॉट नं. 31 और 32, हरिश्चंद का बाग के पास, गांव- खेड़ा धरमपुरा, चपरीला, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश, भारत-201009	मांग सूचना की तारीख 02-05-2024 बकाया राशि	खसरा नं0 645, प्लॉट नं. 18, ब्लॉक-बी, बालाजीए-क्लेब गांव- खेड़ा धरमपुरा माजरा, छपरीला, परगना 7 तहसील दादरी, जीबी नगर, भारत - 201009		
	खाता नं. DL/KRB/KRBH/A000000280 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 06-03-2024	र 40,96,793/- दिनांक 01,04,2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्पादि			
11	श्री जीतेन्द्र सिंह, श्री मनीष कुमारएवं सुश्री किरण देवी, <u>सभीः</u> मकान नं. 1, गली नं. 4, मेन श्याम पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005	मांग सूधना की तारीख 02-05-2024 क्काया राशि	तीसरी मंजिलएमआईजी फ्लैट सं. टीएफ-01 (बिना छत अधिकार के) आवासीय प्लॉट सं. 26 (नगर निगम संख 528) पर निर्मित, क्षेत्रफल 50 वर्ग मी., श्याम पार्क मेन		
	खाता नं. DL/BPR/JHAH/A000000152 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 05-07-2024	₹ 19,09,764/- दिनांक 21.08.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रमार इत्यादि	साहिबाबाद गांव, परगना लोनी, तहसील और जिल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित, चीहदी: पूरव में - सहव पश्चिम में - फ्लैट प्रवेश/सीहियां/फ्लैट सं. टीएफ-उ उत्तर में - अन्य की संपत्ति, दक्षिण में - अन्य की संपत्ति		
12	श्री मनोज कुमार, श्रीमती रंजना सिंह और श्री राजकुमार सिंह, सभी: मकान नं. 106ए सत्यमएन्वलेव साहिवाबाद, आईएमई कॉलेज, मेट्रो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत - 201005	मांग सूचना की तारीख 31-01-2024 बकाया राशि	प्लॉट सं. 106, क्षेत्रफल 59.25 वर्ग गज, खसरा संख्य 114 का हिस्सा, सत्याएनलेव, गांव कड़कड़ मोदन, परगन लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, चीहर्ड्		
	खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000000606 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथि: 31-12-2023	र 11,89,675/- दिनांक 19.01.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	पूरव में - आई.एम.ई. कॉलेज की दीवार, पश्चिम में रास्ता 25 फीट चीड़ा, उत्तर में - प्लॉट संख्या 105, दक्षि में - पुष्पा कार्की का प्लॉट		
13	श्री राजकुमार और श्री कमलेश, दोनों: डी-145, वृज विहार,	मांग सूचना की तारीख 24-08-2024	प्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज (50.16		
	खाता नं. DL/MNR/NANR/A000000042 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथि: 05-07-2024	24-06-2024 बकाया राशि ₹ 3,94,936/- दिनांक 21.06.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	वर्ग मी.) खसरा सं. 783 के अंतर्गत, खोसला नगर, गां सिहानी परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबा (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बोहड़ी: पूरव में - 14 फीट चीड़ सड़क, पश्चिम में - अन्य जीट, उत्तर में - अन्य का जीट विसन में - 15 फीट चीड़ी सड़क		
14	श्री राकेश कील और सुश्री विनीत कील, दोनों: प्लॉट नं.एफ 3,4, आश्रय अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन, गाजियाबाद	मांग सूचना की तारीख 24-08-2024 बकाया राशि	फ्रीडोल्ड आवासीय फ्लैट नं.एफ-3, प्रथम तल पर, (बिन् छत के अधिकार के) सुपर क्षेत्रफल 69.67 वर्ग मी. (75 वर्ग प्लॉट नं. 40 पर निर्मित) ब्लॉक-ए, शालीमा		
	खाता नं. DL/MNR/MVHR/A000000114 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथि: 06-03-2024	₹ 53,00,103/- दिनांक 21,08,2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्पादि	गार्डनएक्स-।, गाँव पसीँदा परगना लोनी तहसील औ जिला गाजियाबाद यू.पी.		
15	श्री रविन्द्र कुमार और श्रीमती अंजू रानी, दोनों: मकान नं. 564 सावर खास मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत - 250222	मांग सूचना की तारीख 17-06-2024 बकाया राशि	प्लॉट सं. 128, प्लैट सं.एसएफ-1-एलआईजी, क्षेत्रफ 35 वर्ग गज, खसरा सं. 299 में शामिल, गली नं. 12 व आबादी, अशोक वाटिका गाँव पसीडा प्रगना लोर्न		
	खाता नं. GR/KAP/KUNJ/A000000495 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 06-03-2024	₹ 31,21,599/- दिनांक 17.06.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रि चीहरी: पूरव - उत्तर पश्चिम में - गती, पश्चिम-दां पश्चिम में - अन्य की संपत्ति, उत्तर-दक्षिण पूरव में - उ की संपत्ति, दक्षिण-उत्तर पूरव में - अन्य की संपत्ति		
16	श्री सुनील कुमार और सुश्री गयनदीप, दोनों: फ्लैट नं.एस-2, ब्रितीय तल आरएचएस साइड प्लॉट नं. 472, शालीमार गार्डनएक्सटेंशन-1, गाजियाबाद	मांग सूचना की तारीख 24-08-2024 बकाया राशि	फ्लैट नं.एस-2, दूसरी मॉजिल, बिना छत के अधिकार वे क्षेत्रफल 92.90 वर्ग मी., प्लॉट नं. 472 पर निर्मित आवासीय कॉलोनी शालीमार गार्डनएक्सटेंशन 1, हदबस		
	खाता नं. DL/NCU/NOIU/A000000696 & CO/CPC/CPOF/A000001689 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथिः 05-07-2024	र 25,13,826/- दिनांक 21.08.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	गांव पसींडा, परगना लोनी, तहसील और जिस गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, चोतटी: पूरव में - सड़र 40 फीट चौड़ी, पश्चिम में - सर्विस लेन 10 फीट चौड़ी उत्तर में - सड़क 40 फीट चौड़ी, दक्षिण में - फीट न 471		
17	श्रीमली दीपा अशोक और श्री अशोक, दोनों: खसरा नं. 147, मोडन नगर, गाजियाबाद	मांग सूचना की तारीख 24-08-2024	फ्रीहोल्ड आवासीय मकान सं. 147, क्षेत्रफल 300 वर्ग गण् खसरा सं. 2554 के अंतर्गत, मोहन नगर, करहेड़ा गांव		
	खाता नं. DL/MNR/NANR/A00000033 & CO/CPC/CPOF/A000002383 ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने की तिथि: 05-07-2024	24-08-2024 बकाया रात्रि र 47,03,886/- दिनांक 21.08.2024 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	खसरा सः 2554 क अवपत, माहन नगर, करहड़ा गाव तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित श्रीहद्दीः पूरव में - अन्य की संपत्ति, पश्चिम में - यशपा का प्लॉट, उत्तर में - सलपाल का प्लॉट, दक्षिण में - 9 की चीड़ी गली		
18	श्रीमती सुमन देवी और श्री राम अवतार शर्मा, दोनों: मकान नं.	मांग सूचना की तारीख	आवासीय प्लॉट भूमि बेजफल 50 वर्ग गज, खसरा स		
	39, न्याये खंड-1, क्षित्रा सन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू. यी. मारत- 201014	17-06-2024 बकाया राशि	1131/2मि. में से, गांव मकनपुर, परगना लोनी, तहसी और जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित, चीटई		

खाता नं. DL/KRB/KRBH/A000000411

& CO/CPC/CPOF/A000001595

ऋण खाते कोएनपीए घोषित करने

की तिथि: 06-03-2024

दिनांक : 16.09.2024, स्थान : गाजियाबाद

SAVANI FINANCIALS LIMITED Corporate Identification Number: L67120MH1983PLC031614

Registered Office: 602, Samarth Vaibhav Co-op Hsg Society Ltd., Off Link Road, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai 400053

Contact No: (022)69454100 | Email-ID: info@savanifinancials.co.in Website: www.savanifinancials.com FIRST AND FINAL CALL MONEY TO THE HOLDERS OF PARTLY-PAID UP EQUITY SHARE HELD AS ON THE RECORD DATE

In terms of the Letter of Offer dated 10th April, 2024 ("Letter of Offer"), the Company had issued Partly-Paid Up Equity Shares, on a right basis, to its existing eligible shareholders at an issue price of Rs. 17.50 (including a premium of Rs.7.50 per rights Equity Share), aggregating upto Rs. 4,900 Lakhs in the ratio of 7 Equity Share for every 1 Fully Paid-Up Equity Shares as on record date i.e. 04th April,

In accordance with the terms of the issue as mentioned in the Letter of Offer, the Company had received Rs. 14/- (comprising of Rs. 8 as Face Value and Rs. 6/- towards share premium) per Partly Paid-Up Equity Shares as application money and the Partly Paid-Up Shares were allotted on Thursday, 18th May, 2024. The balance amount of Rs. 3.50/-per Partly Paid Up-Share (comprising of Rs. 2/- as Face Value and Rs. 1.50/-towards Share Premium) was payable on First and Final Call ("First and Final Call").

The Board of Directors of the Company in its meeting held on Monday, 12th August, 2024 decided to make the First and Final Call of Rs. 3.50/-in respect of 2,80,00,000 Partly Paid-Up shares of face value Rs. 10, issued by the Company on a right basis, pursuant to the Letter

The Rights Issue Oversight Committee in its meeting held on Wednesday, 04th September, 2024 fixed Wednesday, 11th September, 2024 as the record date ("Record Date") for the purpose of determining the holders of Partly Paid-Up shares to whom the notice for First and Final Call will be sent. The Company has intimated the Record Date to the Stock Exchange on Wednesday, 04th September, 2024.

Accordingly, in terms of provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rule made thereunder and the Letter of Offer, the First and Final Call Notice has been sent in electronic mode to the holder of Partly Paid-Up Equity Shares whose email addresses are registered with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") as on Record Date i.e. Wednesday, 11th September, 2024. Further, physical copy of First and Final Call Notice along with detailed instructions and Payment Slip, has been dispatched through permitted modes at the registered address to those shareholders (i) who has not registered their email address with the Company or RTA or (ii) who has specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of First and Final Call Notice through physical/electronic mode on Monday 16th September, 2024. The specimen copy of the First and Final Call Notice is also available on website of the Company and RTA.

First and final	From	То		
Call Payment Period	Monday, 23 rd September, 2024	Monday, 07 th October, 2024		
Modes of	a) Online ASBA	Through the website of the SCSBs*		
Payment	b) Physical ASBA	By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs#		
	c) Online	Using the 3-in-1 online trading-demat-bank account whenever offered by brokers		
	d) Cheque/Demand Draft (made payable to)	a) SAVANI FINANCIALS LIMITED CALL MONEY ESCROW RESIDENT ACCOUNT - 000405159034 [for Residential Shareholders]		
		b) SAVANI FINANCIALS LIMITED CALL MONEY ESCROW NON - RESIDENT ACCOUNT- 000405159035 [for Non- Residential Shareholders]		
		c) IFSC Code : ICIC0000004		
		d) Branch: Backbay Reclamation, Churchgate		

* Please visit https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=35 to refer to the list of existing

Available only to resident shareholders

In accordance with the SEBI circular no. SEBVHO/CFDYDIL1/CIR/238/2020 dated December 8, 2020, shareholders can also make a call money payment by using facility of linked online trading-demat-bank account (3-in-1 type accounts), provided by some of the brokers. Shareholders must log into their demat account and choose the name of the company 'SAVANI FINANCIALS LIMITED' and further click on the option to 'Make Call Money Payment' and proceed accordingly. Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed. Shareholders to note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or the RTA will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.

In case the Shareholder opts to pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First joint Applicant, Final Call Notice No., DP ID No./ Client ID No. and No. of Partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented at the office of RTA on or before Monday, 07th October, 2024.

Shareholders residing at a place in locations wherein the ASBA facility or Bank's collection centres are not available may send their First

and Final call money along with the completed acknowledgement slip by registered post/speed post at the office of RTA to the Issue. Stating the requisite details along with Cheque/Demand Draft payable at Mumbai, so that the same are received on or before last date of payment of Final call money i.e. Monday, 07th October, 2024.

Shareholders are required to make the Call money payment by Monday, 07th October, 2024. Failure to pay the First and Final call Money, as aforesaid shall render the Partly Paid-up Equity Shares, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act and the Letter of Offer along with payment of interest at the rate of 12% p.a. till the date of actual payment. Shareholders may also note that:

The trading of ISIN IN9304E01018 representing Partly Paid-up Equity Shares of Rs. 17.50/- (Rs. 14/- paid-up) has been suspended by the Stock exchanges on Wednesday, 11th September, 2024.

The process of corporate action for converting the Partly Paid-up Equity Shares of Rs. 17.50/- each (Rs. 14/- paid-up) to Fully Paidup Equity Shares of Rs. 17.50/- each to Investors' demat accounts under ISIN-IN9304E01018, is estimated to be completed within 3-4 weeks from the last date of payment of the First and Final call money stipulated under this notice.

In case of non-receipt of the First and Final call money notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate call money notice to the or RTA or may also download same from the website of the Company i.e.www.savanifinancials.co.in or RTA i.e. www.bighshareonline.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP & Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Final call money.

iv. All the correspondences in this regard may be address to: **Bigshare Services Private Limited**

[Registrar and Share Transfer Agent (RTA)] Office No S6-2, 6th Floor

Pinnacle Business Park Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road

Andheri (East), Mumbai-400093 Telephone: 022 - 62638200

Email: rightsissue@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com

Investor grievance e-mail: investor@bigshareonline.com Contact Person: Mr. Suraj Gupta

SEBI Registration No.: INR000001385

Place: Mumbai **Darsh Mehta** Date: 17.09.2024 **Company Secretary and Compliance Officer**

-usion Finance Limited

(Formerly Fusion Micro Finance Limited) CIN: L65100DL1994PLC061287

Ph.: 0124-6910500/6910600



Registered Office: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028. Corporate Office: Plot No. 86, Institutional Sector 32,

Gurugram-122001, Haryana Email ID: companysecretary@fusionfin.com Website: www.fusionfin.com

PUBLIC NOTICE

This public notice is issued by Fusion Finance Limited ("Company") (formerly known as Fusion Micro Finance Limited), a registered NBFC-MFI, as advised by RBI's Department of Supervision, New Delhi, vide its letter dated April 18, 2024, regarding No Objection Certificate (NOC) for the Change in Name of the Company to 'Fusion Finance Limited' from 'Fusion Micro Finance Limited'.

This is to bring in the notice of all the stakeholders that, consequent to the change in name of the company to 'Fusion Finance Limited' from 'Fusion Micro Finance Limited', the Reserve Bank of India has issued a Fresh Certificate of Registration dated August 30, 2024, in the name of 'Fusion Finance Limited', which is received by the company on September 12, 2024.

information.

All stakeholders are requested to take note of the above

The copy of this notice is also available on the website of the Company at www.fusionfin.com.

For Fusion Finance Limited

(Formerly Fusion Micro Finance Limited)

Deepak Madaan Company Secretary & Chief Compliance Officer Membership No. A24811

Date: 16.09.2024 e: Gurugram

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें :

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बंसत लोक, वसंत विहार, नई

दिल्ली—110057 HoraHousing) शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. ७, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली—110057

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८(६) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्ग हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियाँ, जिनका अधिग्रहण हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 22—अक्टूबर—2024 (ई—नीलामी तिथि) को ''जैर्स . है जहाँ है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहाँ जो कुछ भी हैं' आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर से देय-भूग्तेय बकाया राशियों की वसूली के लिये किया जाायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज को डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से बोली प्रपत्र के साथ हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के पास 21-अक्टूबर-2024 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. ७, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

	ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं) / सह—उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार (रचनागत/ भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
	HHFDELHOU 19000003099	राम भवन, कविता पत्नी राम भवन	20/09/2023 रु. 10,68,892/— 12/09/2024 के अनुसार	(भौतिक)	रु. 8,00,000 ∕ —	रु. 80,000 ∕ —
-1				1. 1 =		_

संपत्ति का विवरण : फ्लैट नं. एफ–106, प्रथम तल पृष्डदिशा, छताधिकारों के बिना, भूखण्ड सं. डी–1/5, डी–1/6 पर निर्मित, खसरा सं. 348 पर, जिसका आवृत्त क्षेत्र फल 37.16 वर्ग मीटर अर्थात 400 वर्ग फट है, जिसमें एक शयनकक्ष, एक प्रदर्शनकी कक्ष, एक रसोई कक्ष, एक शौचालय तथा एक बॉलकनी समाविष्ट है, जो रेल विहार कॉलोनी, ग्राम सदुल्लाबाद, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- उत्तर-भूखण्ड सं. ए ९४, रेल विहार सोसायटी, पूर्व- भूखण्ड सं. ए १०६ रेल विहार सोसायटी, दक्षिण- रास्ता २५ फुट, पश्चिम- अन्य की संपत्ति। नियम एवं शर्ते :

ई-नीलामी, पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से दिनाँक 22-अक्टबर-2024 (ई-नीलामी तिथि) को अप. 2.00 बजे के उपराँत 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ आयोजित होगी। इच्छक क्रेताओं / बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे या तो आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से अथवा "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से धराज राशि जमा करें। ई—नीलामी के समापन के उपराँत असफल बोलीदाताओं को धराज राशि वापस कर दी जायेगी।

(1) ई-नीलामी "जैसी है जहाँ है आधार" और "जैसी है जो है आधार" और "वहाँ जो कछ भी है आधार" और "बिना

किसी संसाधान आधार" पर आयोजित की जा रही है और "ऑनलाइन" आयोजित की जायेगी। (2) बोली वृद्धि राशि रु. 15,000 / – (रुपये पंद्रह हजार मात्र) होगी। (3) ई–नीलामी, मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नंबर : 07961200576 / 544 / 594 / 596 / 531 / 583 / 569, 6351896643 और ई-मेल support@auctiontiger.net/ maulik.shrimali@auctiontiger.net) के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जायेगी। (4) यहां संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है, जो कि प्रतिभृत ऋणदाताओं की जानकारी में है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के ऋणभारों, संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित कररेवाले दावों / अधिकारों / बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिये। इस संबंध में, ई—नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की किसी प्रतिबद्धता या किसी अभ्यावेदन का गठन नहीं करता है और न ही गठन करता हुआ माना जायेगा। (5 प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिये किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे। विक्रय, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगा। ई-नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं : www.herohousingfinance.com, (6) संपत्ति के विवरणों और संपत्ति के निरीक्षण के लिये मिस. इरशाद अली / ershad.ali@herohfl.com / 8802270415 तथा शेखर सिंह / 9711522275 / shekhar.singh@herohfl.com से संपर्क करें। (7) संभावित बोलीदातागण, पूर्वानुमित प्राप्त करके 15-अक्टूबर-2024 को मध्या. 11.00 से अप. 2.00 बजे के मध्य संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु 30 दिवसीय विक्रय सूचना

उपरोक्त संवर्णित ऋणकर्ता / बंधककर्ता / गारंटरगणें को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की से पूर्व धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि का तिथि के अनुसार नियत ब्याज एव व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आप से ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात् www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero housing/other-notice का संदर्भ ग्रहण करें।

दिनांक : 17-09-2024 कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी स्थान : दिल्ली / राराक्षे श्री सुनील यादव, मोबाइल— 9818840495 इमेल : assetdisposal@herohfl.com

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE. PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.)

For Savani Financials Limited





BIKEWO GREEN TECH LIMITED

Bikewo Green Tech Limited (our "Company" or the "Issuer") was incorporated on December 9, 2016 as "Right Choice Automobiles Private Limited", a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Deputy Registrar of Companies, Registrar of Companies Central Registration Centre. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Shareholders in their Extraordinary General Meeting held on February 2, 2017, in order to reflect the main business in the name of our Company was changed to 'Right Automobiles Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated February 14, 2017 was issued by the Registrar of Companies, Telangana at Hyderabad. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Shareholders in their Extraordinary General Meeting held on March 14, 2022 and in order to align the name of our Company with our core business activities, the name of our Company was changed to 'Bikewo Green Tech Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated March 25, 2022 was issued by the Registrar of Companies, Telangana at Hyderabad. Further, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Shareholders in an Extraordinary General Meeting held on December 4, 2023 and consequently the name of our Company was changed to 'Bikewo Green Tech Limited' and a fresh certificate of incorporation dated December 14, 2023 was issued by the Registrar of Companies, Telangana at Hyderabad. For details of change in Registered Office of our Company, please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" on page 150 of this Red Herring Prospectus, dated September 11, 2024 filed with ROC.

Registered Office: Plot No. 502B, Amara Jvothi, Road No. 31, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033, Telangana, India: Telephone: +91 812 100 7731; E-mail: info@bikewo.in; Facsimile: N.A.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: KATEPALLI MANIDEEP, SATYAPOORNA CHANDER YALAMANCHILI, N VIDHYA SAGAR REDDY AND MANVI TALWAR

Website: www.bikewo.in; Contact Person: Rakshita Agarwal, Company Secretary & Compliance Officer; Corporate Identity Number: U74999TG2016PLC113345

Attention of investors is being brought to:

Thursday, September 26, 2024

Thursday, September 26, 2024

REVISED BID/ISSUE PROGRAMME®

BID/ISSUE OPENS ON: FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024

BID/ISSUE CLOSES ON: TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2024

"On account of bank holiday declared in Maharashtra by RBI press release no 2024-2025/1114 dated September 14, 2024 the issue opening and issue closing date will be as follows: The issue will now open on Friday, September 20, 2024 and close on Tuesday, September 24, 2024, All other terms and conditions prescribed in the RHP dated September 11, 2024, Price Band and Pre-Issue Advertisement and the Corrigendum, shall

The Bid/Issue Program on page no. 62, 246, and 252 of the RHP dated September 11, 2024, shall be read as under: Event Indicative Date Issue Opening Date Friday, September 20, 2024 Tuesday, September 24, 2024 Issue Closing Date Finalisation of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange Wednesday, September 25, 2024 Initiation of Refunds/ unblocking of funds from ASBA Account*

Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchanges Friday, September 27, 2024 The above is to be read in conjunction with the Prospectus, Abridged Prospectus and all Issue related Stationery and accordingly their references in the Prospectus stand amended pursuant to this Addendum. All capitalised

terms used in this Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Prospectus dated September 11, 2024 filed with the Registrar of Companies. On behalf of Board of Directors

Bikewo Green Tech Limited

Company Secretary and Compliance Officer

Rakshita Agarwal

Disclaimer: Bikewo Green Tech Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated September 11, 2024 has been filed with the Registrar of Companies, Hyderabad, Telangana and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLMs at www.bigshareonline.com. Any potential

page 25 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state secures laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on

www.readwhere.com

Credit of Equity Shares to demat account of the Allottees

Place: Hyderabad, Telangana

Date: September 16, 2024

पुरव में - अन्य की संपत्ति, पश्चिम में - स्कूल, उत्तर में -

स्कुल, दक्षिण में - सड़क /प्रवेश

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड

₹ 10,95,425/- दिनांक

17.06.2024 तक + ब्याज

एवं कानुनी प्रभार इत्यादि

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतवारों को सलाह है कि (1) अधिकएवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नीटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी

बकाया राजि ब्याजएवं खर्बे आदि सहित मांग सुचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।